



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

31 वैशाख 1937 (श०)  
(सं० पटना 586) पटना, वृहस्पतिवार, 21 मई 2015

---

सं० 3ए-2-वे०पु०-02/2011-4525

वित्त विभाग

-----

प्रेषक,

दया निधान पाण्डेय,  
अपर सचिव, वित्त विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक०) बिहार,  
महालेखाकार कार्यालय,  
वीरचंद पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक 18 मई 2015

विषय:- समूह 'घ' के कर्मियों के वेतनमान के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प सं० 2937, दिनांक 31/03/2011 के द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

(i) दसवीं उत्तीर्ण समूह 'घ' के कर्मी को वेतन बैंड-1 एवं ग्रेड-पे-1800/- अनुमान्य होगा तथा इन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा;

(ii) दसवीं अनुत्तीर्ण (नन मैट्रिक) समूह 'घ' के कर्मी को पे-बैंड-1एस एवं ग्रेड-पे 1650/- अनुमान्य होगा। इन्हें पे-बैंड-1 एवं ग्रेड-पे-1800/- एवं वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रशिक्षणोपरांत दी जायेगी;

2. वित्त विभागीय पत्रांक 639, दिनांक 20/01/2015 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दसवीं अनुत्तीर्ण (नन मैट्रिक) समूह 'घ' के कर्मी को प्रशिक्षणोपरांत दिनांक 01/01/2006 अथवा नियुक्ति की तिथि जो बाद में हो, से पी0बी0-1+1800/- का वेतन अनुमान्य होगा।

3. वित्त विभागीय पत्रांक 275, दिनांक 08/01/2015 द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि दिनांक 31/12/2005 को अनुमान्य वेतनमान के आधार पर ही दिनांक 01/01/2006 से वेतन पुनरीक्षण किया जायेगा, जिसका वास्तविक लाभ दिनांक 01/04/2007 से मिलेगा। ऐसी स्थिति में दिनांक 01/01/2006 के पूर्व प्रोन्नति अथवा वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतनमान रु0 2610-4000/-, 2650-4000/- एवं 2750-4400/- में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मी का वेतन पुनरीक्षण दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से क्रमशः ग्रेड-पे 1900/-, 2000/- एवं 2400/- में होगा। अतएव वित्त विभागीय संकल्प सं0 7099, दिनांक 01/08/2011 की कंडिका 5 में वर्णित प्रावधान कि दिनांक 01/01/2006 के पूर्व तथा दिनांक 01/01/2006 से 31/12/2008 के बीच प्राप्त वित्तीय उन्नयन का लाभ दिनांक 01/01/2009 से अनुमान्य होगा, को वित्त विभागीय पत्रांक 275, दिनांक 08/01/2015 के आलोक में निष्प्रभावी माना जाए।

विश्वासभाजन,

दया निधान पाण्डेय,

अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 586-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>